


सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-09012020-215210
CG-DL-E-09012020-215210

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 40]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 2, 2020/पौष 12, 1941

No. 40]

NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 2, 2020/ PAUSHA 12, 1941

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 दिसम्बर, 2019

का.आ. 40(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. , जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा मिजोरम राज्य के लुंगलेई जिले में NH54 के कि.मी. 125 से कि.मी.166 (डी स ऑफिस वेंगलई लुंगलेई) तक के राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण (चौड़ा करने / चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख 2 दिसंबर 2019 को "बंग्लैनी (इंग्लीश और मीज़ो)" और "ज़ोच्हीयार (इंग्लीश और मीज़ो)" दोनों में प्रकाशित किया गया था ;

और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है ;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी।

अनुसूची

मिजोरम राज्य के लुंगलेई जिले में NH54 के कि.मी. 125 से कि.मी.166 (डी स ऑफिस वेंगलई लुंगलेई) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण।

राज्य का नाम: मिजोरम		जिले का नाम: लुंगलेई			
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
	तालुक का नाम: हनहतहीअल				
	गांव का नाम: पांगजौल				
1	LSC 203 / 2000	निजी	ड्राई	0.00476	रोकूंगा (लसक २०३ / २०००)
2	LSC 21 / 1998	निजी	ड्राई	0.02196	हरंगजीका (लसक २१ / १९९८)
3	LSC 306 / 2000	निजी	ड्राई	0.01191	रोकमा (लसक ३०६ / २०००)
4	LSC 328 / 2000	निजी	ड्राई	0.0264	ललथनतलुआंग (लसक ३२८ / २०००)
5	LSC 47 / 1998	निजी	ड्राई	0.00355	वनलालरंगी (लसक ४७ / १९९८)
6	MISC 30 /	अन्य	ड्राई	0.01878	जनरल सेक्रेटरी , वैप्टिस्ट चर्च ऑफ़

	1994				मिजोरम (मिस्क ३० / १९९४)
7	PP 119 / 1976	निजी	ड्राई	0.55995	लिअनकिमा (पप ११९ / १९७६)
8	VC HP 371 / 1990	निजी	ड्राई	0.0295	लोदी हर्मिंगटनसंगी (वक हप ३७१ / १९९०)
9	VC HP 450 / 1990	निजी	ड्राई	0.00455	र . दिंगलिआना (वक हप ४५० / १९९०)
10	VC HP 500 / 1990	निजी	ड्राई	0.0115	लप . लवंतलुआंग (वक हप ५०० / १९९०)
11	VC HP 82 / 1990	निजी	ड्राई	0.00996	स . लालरोलीआना (वक हप ८२ / १९९०)
	गांव का नाम: रवपुइ				
12	MISC 37 / 1986	सरकारी	ड्राई	0.00423	गोवत प / स रवपुइ (मिस्क ३७ / १९८६)
13	VC HP 140 / 1979	निजी	ड्राई	0.00278	क . लॉटलैण्टेंगा (वक हप १४० / १९७९)
14	VC HP 151 / 1976	सरकारी	ड्राई	0.04316	मिडिल स्कूल (वक हप १५१ / १९७६)
15	VCG 170 / 1976	निजी	ड्राई	0.098423	वनरोपइआ (वीसीजी १७० / १९७६)
	गांव का नाम: थिलतलांग				
16	G . LSC 1 / 2006	निजी	ड्राई	0.13556	डेविड लालरामहलुना (गलसस १ / २००६)
17	G . LSC G / 1 / 2004	निजी	ड्राई	0.12277	र . लालदुहावमी (गलसस ग / १ / २००४)
18	VC Gr 6 / 1992	निजी	ड्राई	0.11161	डेंगलीरा (वक गर ६ / १९९२)

19	VC HP 141 / 1988	निजी	ड्राई	0.03793	स . लॉटलैण्डिंगा (वक हप १४१ / १९८८)
20	VC HP 143 / 1988	निजी	ड्राई	0.03173	व् . वंज़ाना (वक हप १४३ / १९८८)
21	VC HP 15 / 2012	अन्य	ड्राई	0.016704	उपच (मिजोरम) (वक हप १५ / २०१२)
22	VC HP 155 / 1988	निजी	ड्राई	0.24703	लिअनकिमा (वक हप १५५ / १९८८)
23	VC HP 16 / 2010	निजी	ड्राई	0.016704	जोसंगलुरा (वक हप १६ / २०१०)
24	VC HP 19 / 2010	अन्य	ड्राई	0.02133	कम्युनिटी हॉल (वक हप १९ / २०१०)
25	VC HP 31 / 2010	अन्य	ड्राई	0.05347	प्लेग्राउंड (वक हप ३१ / २०१०)
26	VC HP 50 / 1988	निजी	ड्राई	0.05782	क . लालज़ारा (वक हप ५० / १९८८)
27	VC HP 57 / 1988	निजी	ड्राई	0.07825	स . रोमाइआ (वक हप ५७ / १९८८)
			कुल	1.782321	

[फा. सं. NHIDCL/BO AIZAWL/PACKAGE 3/03/3D]

राजेश गुप्ता, उप सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 31st December, 2019

S.O. 40(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, , published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intension to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening/four-laning, etc.), maintenance, management and operation of NH54 on the stretch of land from Km. 125 to Km. 166 (D C Office Venglai Lunglei) in the district of LUNGLEI in the State of MIZORAM;

And whereas the substance of the said notification has been published in “Vanglaini (English & Mizo)” and “Zochhiar (English & Mizo)” both dated 2nd December, 2019; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the competent Authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the NH54 in the stretch of land from Km. 125 to Km. 166 (D C Office Venglai Lunglei) in the district of LUNGLEI in the State of MIZORAM

State: MIZORAM		District: LUNGLEI			
Sr. No.	Survey Number	Type of Land	Nature of Land	Area in Hectare	Name of the Land Owner/Interested Person Part Survey No.
1	2	3	4	5	6
	Taluk: Hnahthial				
	Viilage: Pangzawl				
1	LSC 203 / 2000	Private	Dry	0.00476	Rokunga LSC 203 / 2000
2	LSC 21 / 1998	Private	Dry	0.02196	Hrangzika LSC 21 / 1998
3	LSC 306 / 2000	Private	Dry	0.01191	Rokama LSC 306 / 2000
4	LSC 328 / 2000	Private	Dry	0.0264	Lalthantluanga LSC 328 / 2000
5	LSC 47 / 1998	Private	Dry	0.00355	Vanlalrengi LSC 47 / 1998
6	MISC 30 / 1994	Common	Dry	0.01878	General Secretary , Baptist Church of Mizoram MISC 30 / 1994
7	PP 119 / 1976	Private	Dry	0.55995	Liankima PP 119 / 1976
8	VC HP 371 / 1990	Private	Dry	0.0295	Lody Hmingthansangi VC HP 371 / 1990
9	VC HP 450 / 1990	Private	Dry	0.00455	R . Dingliana VC HP 450 / 1990
10	VC HP 500 / 1990	Private	Dry	0.0115	LP . Lawmtluanga VC HP 500 / 1990
11	VC HP 82 / 1990	Private	Dry	0.00996	S . Lalroliana VC HP 82 / 1990

	Viilage: Rawpui				
12	MISC 37 / 1986	Government	Dry	0.00423	Govt P / S Rawpui MISC 37 / 1986
13	VC HP 140 / 1979	Private	Dry	0.00278	K . Laltlanthanga VC HP 140 / 1979
14	VC HP 151 / 1976	Government	Dry	0.04316	Middle School VC HP 151 / 1976
15	VCG 170 / 1976	Private	Dry	0.098423	Vanropuia VCG 170 / 1976
	Viilage: Thiltlang				
16	G . LSC 1 / 2006	Private	Dry	0.13556	David Lalramhluna GLSC 1 / 2006
17	G . LSC G / 1 / 2004	Private	Dry	0.12277	R . Lalduhawmi GLSC G / 1 / 2004
18	VC Gr 6 / 1992	Private	Dry	0.11161	Denghlira VC Gr 6 / 1992
19	VC HP 141 / 1988	Private	Dry	0.03793	C . Laltlanthanga VC HP 141 / 1988
20	VC HP 143 / 1988	Private	Dry	0.03173	V . Vanzawna VC HP 143 / 1988
21	VC HP 15 / 2012	Common	Dry	0.016704	UPC (Mizoram) VC HP 15 / 2012
22	VC HP 155 / 1988	Private	Dry	0.24703	Liankima VC HP 155 / 1988
23	VC HP 16 / 2010	Private	Dry	0.016704	Zosanglura VC HP 16 / 2010
24	VC HP 19 / 2010	Common	Dry	0.02133	Community Hall VC HP 19 / 2010
25	VC HP 31 / 2010	Common	Dry	0.05347	Playground VC HP 31 / 2010
26	VC HP 50 / 1988	Private	Dry	0.05782	K . Lalzara VC HP 50 / 1988
27	VC HP 57 / 1988	Private	Dry	0.07825	C . Romawia VC HP 57 / 1988
			TOTAL	1.782321	

[F. No. NHIDCL/BO AIZAWL/PACKAGE 3/03/3D]

RAJESH GUPTA, Dy. Secy.